

**01**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-12-2020**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए उ0नि0 श्री लक्ष्मी नरायण यादव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा उक्त प्रकरण की जाँच हेतु क्षेत्राधिकारी सदर को निर्देशित किया गया है।

**02**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-12-2020**

**थाना भवानीगंज द्वारा 03 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री उमेश शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 26.12.2020 को श्री रवींद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज के नेतृत्व में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2020 धारा 457,380,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

**अभियुक्तों का विवरण-**

1. सरोज पाठक उर्फ काजू पुत्र विश्वनाथ पाठक निवासी ग्राम मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
2. विमल कुमार पाठक पुत्र विजय कुमार पाठक निवासी ग्राम मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
3. विनीत कुमार पाठक पुत्र कैलाश चन्द्र पाठक निवासी ग्राम मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**03**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-12-2020**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-27-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 268 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 119 वाहनों का चालान कर व 01 वाहन सीज कर ₹ 1,00,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

**04**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-12-2020**

आज दिनांक 27.12.20 को एक अज्ञात महिला जिनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है थाना उसका बाजार क्षेत्र में मिली पूछने पर नाम व पता नहीं बता पा रही थी। प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के काफी प्रयास के बाद महिला के घर का पता लगाया गया महिला का नाम व पता- महिला का नाम अमरावती पांडेय पत्नी श्री जोगेन्द्र पाण्डेय पता राजेन्द्र नगर थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर उम्र 65 साल। महिला के घरवालों को सूचना मिलने पर महिला के सुपुत्र श्री धनंजय पाण्डेय व उनके परिजानों को थाना स्थानीय से सुपुर्द किया गया।

**05**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-12-2020**

मोहाना पुलिस की कार्यवाही में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर CCTV लगाने हेतु अपील-श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व श्री जय प्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में चौकी ककरहवा पर स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत दुकानों/घरों में CCTV कैमरा लगाने हेतु वार्ता हुयी, साथ ही उन्हें जिम्मेदारी दी गयी कि सार्वजनिक स्थानों/चौराहों/घरों/दुकानों पर समन्वय स्थापित कर CCTV कैमरा लगाये।